



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 16, 2019
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER

Jaipur, September 11, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9728 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Nawa has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Nawa. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

नगरपालिका नावा शहर जिला नागौर
(प्रपत्र-क)

क्र.स.	वार्ड संख्या	वार्ड सीमांकन विवरण
1	2	3
1	1	भगवती साल्ट से पश्चिमी दिशा में भागीरथ चौधरी का जाव लेते हुए सरहद मौजा खारड़िया भोमियाजी का मंदिर तक वापस इसी रास्ते दोनो तरफ रामू जी माली, जीतू जाट का खेत लेते हुए पेमाराम जांदू का कआ लेते हुए पाटनी रिफाइनरी लेते हुए मोहन जी जान्दू का खेत लेते हुए माणक माली का प्लांट लेते हुए आयुब लौहार का प्लांट लेते हुए सरवर खां का प्लांट लेते हुए केडिया साल्ट से बालकिशन चौधरी का मकान लेते हुए, गोपाल सिंह का मकान लेते हुए पीनू मिस्त्री की दुकान लेते हुए सामने नायकों की बस्ती, रामचन्द्र रेगर का मकान लेते हुए वापस इसी रास्ते मदनजी कुमावत का मकान होते हुए श्योकरण खाती का मकान लेते हुए कब्रिस्तान होते हुए, खटीकों के शमशान होते हुए रिशभ साल्ट से पूर्वी दिशा में भारत साल्ट व दुर्गा साल्ट के दक्षिणी दिवार लेते हुए पिन्टू बन्ना के प्लांट की दक्षिणी दिवार होते हुए प्रभूसिंह का प्लांट लेते हुए शिवजी का मंदिर से अशोक टेलर, रामूजी का घोड़ेला का मकान लेते हुए

		गिरधारी जी दूण की दुकान से दोनो तरफ के मकानात लेते हुए मूलजी टेलर के मकान तक वापस इसी रास्ते गणपत जी का मकान लेते हुए आर.ओ.बी तक वापस रेल्वे लाईन के दक्षिणी दिशा में रेल्वे स्टेशन लेते हुए रेल्वे रेस्ट हाऊस होते हुए सरवस्ती साल्ट होते हुए श्री माली का मकान लेते हुए भगवती साल्ट तक।
2	2	पंचायत समिति से अंजनी माता का मंदिर से रेल्वे गेस्ट हाऊस, गौ-शाला, कालू गुर्जर का मकान से नाथू बलाई, बबलू गांधी का मकान लेते हुए नमक मजदूर कॉलोनी लेते हुए रा.प्रा.वि. नं.2 लेते हुए सवाई सिंह का खारड़ा लेते हुए मोहनपुरा सीमा तक शाह जी की कोठी से बालाजी विहार का सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए तुलसीराम कुमावत का मकान लेते हुए बियाणी पेट्रोल पम्प लेते हुए भंवर मुरावतिया का कुआ लेते हुए एब्रेसिव फैक्ट्री से मोहन मीणा के जाव की समस्त बस्ती लेते हुए गणेश विहार में श्रवण कुमावत का मकान व समस्त बस्ती, गुलाब माली का कुआ लेते हुए भंवर जाट का मकान लेते हुए विक्रम जाट का मकान, छीतर कुमावत का मकान लेते हुए मोहन जांदू का मकान ढाका अर्जुन पटेल की ढाणी लेते हुए पंचायत समिति कार्यालय तक।
3	3	बाबूलाल खटीक, गोपाल सिंह राजपूत, सेठू कुमावत का मकान लेते हुए अजमेर नावां रोड़ के दक्षिणी तरफ की नमक मजदूर कॉलोनी लेते हुए अर्जुन मेघवाल का मकान होते हुए पुलिस थाना, प्रकाश गुर्जर चन्द्रशेखर शर्मा के मकान से आबकारी भवन, पी.डब्ल्यू.डी., नावां-कुचामन सड़क के दक्षिणी तरफ मोतीसिंह चौधरी, सुन्दर सिंधी, मनोज मिश्रा, तेजराज कुमावत, शनि मंदिर, युगल कुंज से गवारियों की सम्पूर्ण बस्ती, नगरपालिका कार्यालय, मोती जी आखली, सांभरिया भवन, कुमावत का मकान, बी.एस.एन.एल टॉवर से आई.टी.आई, शिवजी का मंदिर से सांभर साल्ट का एरिया नमक मजदूर कॉलोनी में बाबूलाल खटीक के मकान तक।
4	4	लक्ष्मण गंवारिया के मकान से छगन सोनी के मकान से नरेश बंसल से कालूजी मिस्त्री जयपुर गोल्डन, चौधरी कांटा, पेट्रोल पम्प बस स्टेण्ड होते हुए पशु चिकित्सालय से पुरुषोत्तम गौड़ से कॉर्पोरेटिव बैंक से शंकर सिंधी की दुकान से नर्बदेश्वर मंदिर लेते हुए राधाकृष्ण स्वामी के मकान से साल्ट कॉलोनी से टंकी की ढाणी सम्पूर्ण के दोनो तरफ के मकान लेते हुए श्योराम गुर्जर का मकान लेते हुए गोपाल जांगीड़ से सत्यनारायण कुमावत से गंगाराम जाट की दुकान से राजस्थली स्कूल से फूल जी गुर्जर से लक्ष्मण गंवारियां के मकान तक।
5	5	लाला कुमावत, गोपाल जी कुमावत के मकान से मालचंद कुमावत के मकान होते हुये ओकार जी माथुर मकान की गली का सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए वापस गिरधारी गुर्जर के मकान से लालाराम कुमावत की दुकान से बंकट जी का मकान लेते हुए गलिया व वापस छीतर छापोला के मकान से चौधरी ऑटो मोबाईल होते हुये बंशी जी , खटीकों का मकान से जयराम किलका का मकान

		लेते हुए रामनिवास रेगर की दुकान तक आगे छोटू रेगर से कृषि विभाग कार्यालय से अंकित जोशी से अजय अग्रवाल से पानी की टंकी होते हुए प्रितम जोशी की गली लेते हुये अर्जुन जी लाईनमेन होते हुये मोहन जी कुमावत का मकान लेते हुये पूरण रेगर के प्लांट से प्रकाश जमादार के मकान तक आगे धनश्याम जोशी से रफिक कलाल की गली से लालाजी सोनी के मकान से तहसील तक।
6	6	खटीकों के शमशान की उत्तरी पूर्वी दिवार से सत्यनारायण नायक का मकान लेते हुये राजू दायमा का मकान लेते हुये सुगन खटीक का मकान लेते हुये भंवर खटीक का मकान लेते हुये गंगाकिशन का मकान लेते हुये धवरी का मकान लेते हुये मदन बलाई का मकान लेते हुये टेगोर स्कूल से रामचन्द्र जाट के सामने हेमराज शर्मा का मकान लेते हुये शर्मा टाईप का मकान लेते हुये सीधा अयूब मनिहार के मकान से विरेन्द्रपाल जी के मकान से आनंद खटीक से इन्द्रजी जाट के मकान लेते हुये कैलाश स्वामी का मकान लेते हुये राजू ड्राईवर के मकान से वापिस खटीकों के शमशान हेतु।
7	7	रमजान कसाई के मकान से अजमेर विद्यतु वितरण निगम लिमिटेड होते हुए अशोक ऑफसेट लेते हुए गुजराति बगीची का सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए गोपाल जी मिश्रा के मकान लेते हुए ओम जी फलौदी वाले का मकान से से विजय का मकान से सीधे विनोद सिंह जी का मकान लेते हुए नाहर सिंह का मकान लेते हुए बाबूलाल गवारिया का मकान से कमलेश जी सोनी से प्रेमचंद मास्टर की दुकान से वापस गर्ल्स स्कूल चौराया मनोज ज्यूस की दुकान से रमजान कसाई तक।
8	8	गर्ल्स स्कूल चौराया गोपाल कुमावत की दुकान से मंजूर अली का मकान से तेजाजी मंदिर से गवारियों की सम्पूर्ण बस्ती लेते हुए मारवाड़ी भवन से मेघजी माली का मकान से सुरेश पिंग का मकान कायमखानी का मकान से कालूजी माली का मकान लेते हुए भवरू खां रिडर के मकान से अशोक झांझरी तक वापसी इसी रास्ते से छीतर जी बोल्डी वाल ेके मकान से भैरजी चोयल होते हुए रामू जी माली की गली से बोदूमाली का मकान लेते हुये हरकू माली का मकान से खटीकों का चौक,रेगर बस्ती निधी कांटा होते हुये मैना फूलवारिया से पोस्ट ऑफिस से गर्ल्स स्कूल चौराया।
9	9	मदन जी खटीक के मकान से मुन्ना जी खटीक के मकान से राजू टेलर की दुकान से गणपत जी टांक का मकान लेते हुये रामेश्वर जी सोढाणी का मकान होते हुये सीताराम कुमावत का मकान लेते हुए छीतर जी मलिदा के मकान से नायकों की गली व फकीरों के मकान से खटीकों के मकान लेते हुये ताराचंद जी साहू, नंदलाल जी मोर, नोला जी कुमावत की गली से राजकीय चिकित्सालय होते हुए महालक्ष्मी होटल से मोहन जी कुमावत की गली सामने कालू भाटी के मकान लेते हुए मदन जी खटीक के मकान तक।

10	10	राजू बोहरा के मकान से बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से गुड शेफर्ड स्कूल लेते हुए नवाब तेली का मकान से जाट-छात्रावास से रामेश्वरजी वकील का मकान लेते हुए रामचन्द्र घोड़ेला की दुकान से रेल्वे लाईन तक तथा यहां रेल्वे लाईन की दक्षिणी दिशा से सहमत नगर फाटक होते हुए छीतर टैंकर वाले का मकान से शिव मंदिर होते हुए दानजी भट्टा वाले का मकान से सम्पूर्ण पीपली बाड़ लेते हुए चन्द्रप्रकाश शर्मा का मकान लेते हुए राजू बोहरा तक।
11	11	मुन्ना कायमखानी के मकान से दरगाह लेते हुये महेश्वरी भवन होते हुये तकिया फकिरान समस्त लेते हुये कृष्ण मुरारी बियाणी का मकान लेते हुये जगदीश जी बेरीवाल की दुकान से रामपाल कोठारी का मकान से ताराचंद जैन के मकान तक वापस गोविंद सहाय पारीक से मूलचंद बाबर का मकान से संजय सैन की दुकान से बोबर गली सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए खाजू हलवाई की दुकान से उस्मान की दुकान से मैन बाजार गोल प्याऊ से उपर जैन मंदिर से पवन शाह की दुकान से मालूओं का चौक लेते हुये पारसमल शाह के मकान से महावीर झांझरी मकान से श्री राधाकिशन बियाणी के मकान से रा.प्रा.वि.नं.5 की गली लेते हुये रमेश व्यास के मकान से डाकीदड़ा सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए वापस दामोदर बियाणी से सत्यनारायण अग्रवाल से तेली वे गोपाल गौड़ से प्रेमचंद सांखला से हमीद खां की गली तक।
12	12	महावीर काला का नया मकान, धर्मचंद जी चौधरी हरिप्रसाद सैन के मकान से लुहारों के मकानात शिव मंदिर से गणेश जी के भूखण्ड के सामने नारू गुर्जर से चारभुजा मंदिर से वाल्मिकी भवन से बजरंग हरिजन का मकान लेते हुये विनोद हरिजन नेमचंद हरिजन की गली में जैमनी जी उपाध्याय का मकान से कमलेश उपाध्याय अशोक बोहरा का मकान रतन जी तिवाडी का मकान अशोक बोहरा का मकान विवेकानंद स्कूल टंडन साहब की हेवली से चंदू बियानी कल्लू सोनी के मकान से जगदीश बेरीवाल के मकान तक तथा वापिस इसी रास्ते हाई स्कूल के पीछे शिवदत्त जी मास्टर जी गली सवाई सिंह का मकान सुरेन्द्र गौड़ गुलाब जी वर्मा तेजसिंह भैरूसिंह का मकान लेते हुये सामने पूरणधोबी के मकान से सुमेर सेठ के मकान लेते हुये महावीर ठोलिया के नोहरे से चौधरी की हवेली, कमल दर्जी का मकान से महावीर जी के नया मकान तक।
13	13	सत्यनारायण जी लढा की दुकान से उत्तर की तरफ बिसायतियों की गली से समस्त मकान वापस विनोदपाण्डया से शांतिलाल सांखला से गटानिया का मकान से श्री किशन बियानी मकान व साथ के मकान लेते हुये श्याम सुन्दर टेलर से माधव धूत के आमने सामने के मकान लेते हुये मिश्रों की गली सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुये सुभाष चौक तक वापस इसी रास्ते बृजमोहन मिश्रा के मकान लेते हुये सामने विज्जम स्कूल सम्पूर्ण गाली लेते हुये रामलक्ष्मण मंदिर से केदार मिश्रा के मकान लेते हुये द्वाराका जी गली बोहरा का चौक धनसुख जी की

		गली लेते हुये कैलाश टेलर के सामने से पाबूजी स्थान तक धर्म चंद अजमेर सुरेश शर्मा के मकान लेते हुये कैलाश जी पाटनी से भैरू दाधीच का मकान लेते हुये हरि पेंटर का मकान लेते हुये नंदलाल जी मास्टर से सागर जी ठोल्या का नया मकान पप्पू सैन का मकान लेते हुये मोतीराम जी का कुआ लेते हुये जीतू पाण्डया की गली लेते हुये सागर ठोल्या का मकान महावीर काला का मकान लेते हुये नीलकण्ठ महादेव मंदिर से लक्ष्मीनारायण मंदिर से जैन औषधालय से धूर्तों के मकान से भैरूबक्ष मिश्रा की गली धनश्याम लढा से नानक चाचा से सत्यनारायण लढा की दुकान तक।
14	14	रमेश गोलवा के मकान से टीकमचंद सोनी के मकान अजमल खां का मकान लेते हुए सेन बगीची से भवानी शंकर झाईवर, जुगल टेन्ट, रामेश्वर कुमावत से पूर्वी दिशा के समस्त मकानात लेते हुए सहमत नगर फाटक होते हुए शिव विहार कॉलोनी का सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए लालाराम राजोरा की गली के दोनो तरफ के मकानात लेते हुए वापिस इसी रास्ते सेन बगीची से बल्लाराम कुमावत का मकान उमेश गुर्जर, मंगलसिंह, बजरंग कुमावत का मकान केसाराम कुमावत, ज्ञानचंद लखन, रामदास हरिजन, मूलचंद हरिजन से रमेश गोलवा के मकान तक।
15	15	प्रकाश जी भूणी वाला के मकान से श्रीनाथ जी गौड़ के मकान से साबीर खां के मकान से मजार लेते हुये राजू धोबी के मकान तक आगे बाबूलाल बरवड़ के मकान से जामा मस्जिद से रंगरेज के मकान से रा.उ.प्रा.वि.नं.1 से रफिक की दुकान होते हुये सूर्या गारमेन्ट से टेलीफोन एक्सचेंज की गली लेते हुये वापस उदमीराम की दुकान से पवन पान वाले का मकान से आगे कसाईयों की गली में तेली का मकान लेते हुये मुर्तजा मास्टर का लेते हुये सरफराज खॉ झाईवर का मकान लेते हुये इकरामुदीन के मकान से मोहनलाल वर्मा का मकान लेते हुये ओमजी भूणी वाले का मकान लेते हुये प्रकाश भुणी वाले के मकान तक
16	16	आरीफ खां के मकान से तनजीम खां के मकान लेते हुए जे.डी.खान के मकान से गुलाम रसूल की गली लेते हुये मदर सा, हाफिक खां के मकान से रसीद खां मास्टर की गली से जगदीश जान्दू से अजमल अली व परवेज खां के मकान से मणिहारों के मकान गली से दोनो तरफ के मकान लेते हुये मकदूर खां के मकान से ओम जी जाट से रामनारायण स्वामी के मकान से कैलाश सोनी का चौक लेते हुये ताराचंद बलाई, महावीर श्रवण चौधरी से गोरधन गुजराती का नया मकान लेते हुये रा.उ.प्रा.वि.8 की गली से सामने रामदेव जी मंदिर से बाबू ढोली से धूत भवन व छाबड़ा के मकान लेते हुये गणेश मंदिर से मोहन जी मोदी की गली, लोहियों की गली लेते हुये सांभरिया की दुकान से रामगली से बाबा की गली से जैन स्कूल से रघुनाथ जी का मंदिर लेते हुये बड़भूज्या का मकान से उस्मान का मकान लेते हुये रसीद मणिहार के मकान से जाफर खां

		के मकान तक।
17	17	भोमाराम कुमावत के मकान से खटीक धर्मशाला होते हुए श्याम जी मांधणा के मकान से गोपाल जी मोर का मकान से खटीकों की हवेली से पास चाचा की दुकान से सम्पत गौड़ के मकान से अग्रसेन भवन तक वापस सम्पत जी की चक्की वाली गली से किशनलाल भूणीवाला धनश्याम जी गौड़ होते हुये सुरेश अजमेरा से नेम जी भूणी वाला का मकान से चिरंजी भूणी वाला से गोपाल गौड़ से नासीर का मकान तक आगे बट्टी अग्रवाल, राजकुमार गंगवाल के मकान लेते हुए भूणी वालो का जाव लेते हुए करारी से कुमावतों की ढाणी सोहन अर्जुन कुमावत लेते हुए वापस भूणी वाला का जाव होते हुये राधेश्याम बेरीवाल के मकान लेते हुये कानजी आखली के मकान से रामगोपाल टेलर के मकान से भोमाराम कुमावत के मकान तक।
18	18	ओमाशंकर जी माथूर का मकान से मदन लाल रेगर का मकान लेते हुये गणेश जी मास्टर की दुकान लेते हुये मुन्ना कायमखानी का मकान लेते हुये अल्लाहद्दीन इमामुछीन का मकान लेते हुये पप्पू तेली का मकान लेते हुये मो. रसीद के मकान से वापस पीर बाबा रोड से रतन रेगर का मकान से गणेश जी की दुकान से वापस इसी रास्ते ओमाशंकर जी माथूर के मकान के सामने गली के तनसुख माली के मकान से रामदेव से गंगाराम खाती से गणेश जी गर्जर के मकान से राणाजी के मकान लेते हुये कन्हैयालाल पाराशर से रावला से पांचूलाल से नाइयों की गली लेते हुये सवाई जी की चक्की से लुहारों के मकान लेते हुये खाजू तेली के मकान से सीताराम माली से प्रहलाद माली होते हुये रामदेव जी के मंदिर से वापस बाजार की तरफ राजू जी काला की दुकान से छोटा जैन मंदिर से विमल जी गंगवाल की गली से जैन मंदिर रमा फोटो स्टूडियो से पुराना पुलिस थाना तक।
19	19	दुलीचंद बलाई के मकान से हनुमान व माधुराम से दिलीप ढोली, पीरूबक्स, अशोक लखन के मकान लेते हुये पीर बाबा से श्री बियानी खारड़ा से सरहद मोजा सांभर झील, बावरीयों के मकान लेते हुये वापस प्रहलाद सिंह का खारड़ा से नदी के रास्ते पश्चिमी तरफ गुदड़मल जी की फैक्ट्री से भंवर जी रेगर की गली से मदन रेगर के मकान से घासी बोहरा के मकान से सूजाराम कुमावत के सामने रामश्वर रेगर से बिरदाराम मास्टर का मकान लेते हुये सुमेर गुर्जर लाल गुर्जर से रतन जी घोटिया से कालू जी छाबड़ा के नोहरे से भागीरथ बलाई से मोहन लाल चौहान से दूलीचंद बलाई तक।
20	20	भंवर जी माली के मकान से खीवराज कुमावत की गली के दोनो तरफ के मकानात लेते हुये फेफली का मकान लेते हुये सड़क की दक्षिणी दिशा में रामेश्वर की होटल लेते हुये मोतीराम बाबा की कोठी लेते हुये स्कूल नम्बर 3 लेते हुये हीराराम राजोरा के मकान तक व चेनाराम की मकान की गली के दोनो

		<p>तरफ के मकान लेते हुये खाजूराम के मकान तक वापस इसी रास्ते आनन्द नाथ की दूकान होते हुये किशननाथ का मकान से श्रवण जी कुमावत के मकान होते हुये बालूराम जी नागा के आसपास के मकान लेते हुये पगल्या वाला बाबा से जाब्दीनगर सीमा तक वापस उसी रास्ते जयपुर नमक उद्योग से बोहरों के शमशान लेते हुये नदी के रास्ते खीवंराज के मकान से भंवर जी माली तक।</p>
21	21	<p>बजरंग कुमावत के मकान से ओम कुमावत का मकान लेते हुए मोती धुन्धारियां से जेठू जी धुन्धारिया का मकान लते हुये सीताराम नागा का मकान लेते हुये लालाराम नागा का मकान लेते हुये लक्ष्मण राजोरा का बाड़ा लेते हुये मोती सिहोटा का मकान लेते हुये छीतर दुबलदिया का मकान लेते हुये प्रेम जी सीमेंट का मकान लेते हुये रामेश्वर जी माचीवाल का मकान लेते हुये उत्तर दिशा में हेमाराम दुबलदिया से छितरमल दुबलदिया के मकान के सामने नवरतन का मकान लेते हुये रामनिवास राजोरा, की गली में तुलसीराम पचेरीवाल से मंगलाराम पचेरीवाल का बाड़ा सामने रामू दादरवाल छीतर देवतवाल के मकान लेते हुये भंवर जी सिंहोटा का मकान लेते हुये हरिनाथ की सम्पूर्ण गली लेते हुये वापस इसी रास्ते मोबानाथ का मकान लेते हुये किसननाथ का नोहरा लेते हुये आस पास का समस्त मकानात लेते हुये जीतू कुमावत की गली लेते हुये रामेश्वर कुमावत का मकान लेते हुये सरहद मौजा राजास तक वापस इसी रास्ते रामेश्वर मीणा का मकान लेते हुये हनुमानराम जाट के आस पास के मकान लते हुये गोपाल जी सिंहोटा का मकान लते हुये कानाराम जी सिंहोटा का मकान लते हुये रामचन्द्र सिंहोटा का मकान लेते हुये सांडशाला लेते हुये मांगीलाल मानधनिया का मकान लेते हुये बाबूलाल के वर्कशॉप की सम्पूर्ण गली लेते हुये रामेश्वर जी दुबलदिया की गली के समस्त मकानात लेते हुये गंगाराम जी का मकान लेते हुये केसरिया कंवर जी की गली में दोनो तरफ के मकानात लेते हुये चेनाराम नागा का मकान लते हुये रामचन्द्र राजोरा का मकान लेते हुये तुलसीराम जी के वर्कशॉप की गली के समस्त मकानात लेते हुये पप्पू टेन्ट का मकान लेते हुये शिम्भू राजौरा का मकान तक।</p>
22	22	<p>पूसाराम फौजी के मकान से लक्ष्मीनारायण का मकान लेते हुये जोधाराम की गली के समस्त मकानात लेते हुये मोती जी जलान्धरा का मकान लेते हुये राधाकृष्ण मंदिर होते हुये शमशान का गेट होते हुये राजेश जलान्धरा का मकान लेते हुये मानदास स्वामी का मकान लेते हुये हनुमान जी धुन्धारिया का मकान लेते हुये पप्पू रेबारी का मकान लेते हुये रामेश्वर राजोरा का मकान लेते हुये पुसाराम की गली लेते हुये गोपाल जी हलवाई का मकान लेते हुये मंगल दादरवाल का मकान लेते हुये मोहन सोकल, धारू सोकल का मकान लेते हुये नागू सिंहोटा का नौरा लेते हुये सरहद मौजा राजास वापिस सामने के रास्ते में नागूराम जी सिंहोटा का मकान लेते हुये नेमीचंद सिंहोटा का मकान लेते हुये रा.प्रा.वि.नं 13 लेते हुये कालूजी नागा का मकान लेते हुये बिरदीचंद किरोड़ीवाल</p>

		का मकान लेते हुये चेनानाथ का मकान लेते हुये रामचन्द्र पचेरीवाल का मकान लेते हुये गंगाराम फौजी का नोरा लेते हुये नंदाराम जी दुबलदिया का मकान लेते हुये पूसाराम नागा का मकान लेते हुये रेबारियों का बाड़ा लेते हुये रामेश्वर सिहोटा का बाड़ा व मकान लेते हुये प्रभू भूतपूर्व पार्षद का मकान लेते हुये हुक्माराम नोखवाल का मकान लेते हुये नारायण जी मास्टर का मकान लेते हुये मोटाराम सिहोटा का मकान लेते हुये हनुमानप्रसाद जी नागा का मकान लेते हुये मदन छापोला का मकान लेते हुये बाबूलाल छापोला का मकान लेते हुये जेठू धन्धारिया का मकान लेते हुये बाबूलाल धुन्धारिया का मकान लेते हुये लालचंद मिस्त्री का मकान लेते हुये रामचन्द्र जी जलान्धरा का मकान लेते हुये लक्ष्मीनारायण जी का बाड़ा लेते हुये कालू घोड़ेला का मकान लेते हुये दुलजी का मकान लेते हुये रामू कुमावत का मकान लेते हुये मोडूराम के मकान की बस्ती लेते हुये मुनीर बागवान का मकान लेते हुये गणेशजी के मंदिर लेते हुये शमशान के रास्ते के दक्षिणी दिशा में कालू कासीद का कुंआ लेते हुये शमशान के दक्षिणी दिशा में कुनण किरोड़ीवाल का मकान लेते हुये रेबारियों की बस्ती लेते हुए अर्जुन जेठीवाल का मकान लेते हुये पूसाराम फौजी के मकान तक।
23	23	हीरालाल के मकान से दुलीचंद का मकान लेते हुये बागवानों की सम्पूर्ण गली लेते हुये भंवरलाल मास्टर का मकान लेते हुये राजेश पार्षद का मकान लेते हुये भट्टे वाली जमीन से रामचंद्र कुमावत के पूर्वी दिशा के मकानात लेते हुये नंदलाल हरीजन का मकान लेते हुये जितू पाण्डया की दूकान लेते हुये शमशान सड़क के दोनो तरफ के मकानात लेते हुये भूतनी माता की ढाणी के समस्त मकानात लेते हुये दूर्गा कुमावत रामलाल कुमावत गोपी कालू कुसमीवाल से सरहद मौजा राजास सामने लढा कृद्गिा फार्म जगन्नाथ केमफूड, से मोहन जी घोड़ेला के आस पास के समस्त मकानात लेते हुये भीवडा बालाजी का मंदिर लेते हुये सामने हरीओम कॉलोनी का सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुये संत प्रेमरामजी के आश्रम से रामस्वरूप जी कुमावत के मकान से रेलवे पुलिया के नीचे से रामरतन जी की कोठी लेते हुये अम्बेडकर छात्रावास तक।
24	24	सरहद मौजा आबास भैरूजी मंदिर से पश्चिम दिशा की सम्पूर्ण बस्ती लेते हुये सरहद मौजा खारडिया से वापस जयपुर कुचामन बाईपास के उत्तरी दिशा को लेते हुये नई पंचायत समिति कार्यालय होते हुये पोखर माली के मकान से होतु हुये करणी कृपा होटल होते हुये नाथू जी मारवाल की सम्पूर्ण बस्ती लेते हुये बनजी गुर्जर बालाजी फिलिंग स्टेशन से माधव जी धूत की फैक्ट्री से सुखा बाबा लेघा से भैर जी कुमावत के मकान से आबास सरहद से पांचू खेजड़ी की समस्त बस्ती लेते हुये भगत सिंह कॉलेज से भैरूजी मंदिर तक।
25	25	सांभर चौराया दूर्गा होटल से भारत पेट्रोल पम्प से बाईपास जयपुर कुचामन रोड के दक्षिणी के समस्त मकानात लेते हुये सरहद मौजा खारडिया लेते हुये वापस रेलवे लाईन के उत्तरी दिशा के समस्त मकानात लेते हुये नमक प्लांट लेते हुये

		मीणा की कोठी लेते हुये अशोक जी जोशी की रिफाईनरी लेते हुये कैलाश साल्ट होते हुये सम्पूर्ण साटिया कॉलोनी लेते हुये पूसाराम कुमावत से सम्पत मेघवाल व रामूजी घोडेला होते हुये नारायण पचेरीवाल का मकान लेते हुये तुलछीराम लाईनमेन की बस्ती लेते हुये डिम्पल मार्बल होते हुये ठाकरों की कोठी लेते हुये ईगल होटल होते हुये सामने दुर्गा हॉटल सांभर चौराया तक।
--	--	--

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका नावां सिटी

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।